



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1—मई 7, 2010 (वैशाख 11, 1932)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1—MAY 7, 2010 (VAISAKHA 11, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2010

सं. एन-15/13/1/12/2008-यो. एवं वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अप्रैल, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

“आंध्र प्रदेश राज्य में नलगोण्डा जिले के चौटुप्पल मण्डल के एस. लिंगोतम् तथा विन्ना कोण्डूरु (मण्डलगूडेम् एवं तूरुपुगूडेम् के गांव) राजस्व गांव के सीमा में स्थित सभी क्षेत्र।”

आर. सी. शर्मा  
निदेशक (यो. एवं वि.)

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बेंगलूर-560025, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं.कभनिसं/अकेआ(क&गो)/नि.स.बी.-छूट(४)/१९/2010-11 दिनांक ०८.०४.२०१० जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा २(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, मेट लैफ़ इंडिया इंसुरेंस और रिलायन्स लैफ़ इंसुरेंस कं. लि. की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गोवा, बेंगलूर, गुलबर्गा एवं मंगलूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात नियोक्ता कहा गया) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियाँ संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १७ की उप-धारा (२क) के खण्ड (क) के अंतर्गत समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के १५ दिन के भीतर भुगतान करेंगे।
3. लेखाओं का रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत करना, बीमा किस्तों का भुगतान, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे।
5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य हैं और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम, मेट लैफ़ इंडिया इंसुरेंस और रिलायन्स लैफ़ इंसुरेंस कं. लि. को उसकी आवश्यक किस्त का भुगतान करेंगे।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता, शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामित(ियों) विधिक वारिस(सों) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे।
8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहाँ किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे।
9. अतः किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम, मेट लैफ़ इंडिया इंसुरेंस और रिलायन्स लैफ़ इंसुरेंस कं. लि. के सामूहिक बीमा योजना के, जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है, के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है।

१०. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा निगम, मेट लैफ़ इंडिया इंसुरेंस और रिलायन्स लैफ़ इंसुरेंस क. लि. द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोजित बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है।
११. यदि नियोजित द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परंतु छूट देने के कारण उसके नागिति(यों), विधिक वारिस(सों) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोजित का होगा।
१२. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, मेट लैफ़ इंडिया इंसुरेंस और रिलायन्स लैफ़ इंसुरेंस क. लि. मृत सदस्य के नागिति(यों) तथा विधिक वारिस(सों) जो बीमाकृत राशि के हकदार हैं को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

## [डॉ ए महेन्द्र राजु]

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय(कर्नाटका एवं गोवा)

कृते तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली की ओर से

### (अनुसूची -I)

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना नंबर तथा दिनांक	क्षेत्र/उ.क्षेत्र	कोड नंबर	स्थापना का नाम	छूट की अवधि	
					से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	-	क्षेत्र-गोवा	गोवा/12425	मेसर्स.गोवान कार्निवल एंड लीसर्स प्र.लि.	०१.१२.०८	३०.११.११
2	No.2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1276 dt 18.02.03	क्षेत्र-मंगलूर	कर्नाटक/6937	मेसर्स. मंगलूर केमिकल्स एंड फ्रेटिलायसर्स लि.	०२.०१.०४ ०२.०१.०७	०१.०१.०७ ०१.०१.१०
3	---	क्षेत्र-मंगलूर	कर्नाटक/38385	मेसर्स.श्री मेदिनि क्वाड्रु एक्सपोर्ट्स	०१.०४.०९	३१.०३.१२
4	Govt. of India Notification dt: 31.03.2007	उ.क्षेत्र-उडुपि	कर्नाटक/12218	मेसर्स.मादव क्रिया इंग्लीश नर्सरि एंड हैयर प्रायमरि स्कूल	०१.०६.०९	३१.०५.१२
5	Govt. of India Notification dt: 22.03.2008	उ.क्षेत्र-उडुपि	कर्नाटक/20227	मेसर्स. श्री कृष्णा डैरि प्रा.लि.	०१.०६.०९	३१.०५.१२
6	Govt. of India Notification dt: 31.03.2007	उ.क्षेत्र-उडुपि	कर्नाटक/12232	मेसर्स. दि.एम.ए. पै फ़ौंडेशन	०१.०३.०९	२८.०२.१२
7	--	उ.क्षेत्र-हुबली	कर्नाटक/5492	मेसर्स. दि नितिश लहरि एजुकेशन सोसैटि	०१.०३.०९	२९.०२.१२
8	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2009/719 dt 22.01.2009 (Gazette of India Notification dt 21.02.2009)	उ.क्षेत्र-हुबली	कर्नाटक/11899A	मेसर्स. कर्नाटक लॉ सोसैटि	०१.१२.०२ ०१.१२.०५	३०.११.०५ ३०.११.०८
9	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 DT 09.03.07 (G.O.I. Notification dt 31.03.07)	उ.क्षेत्र-हुबली	कर्नाटक/27305	मेसर्स. श्री बीरेश्वर सौहार्द क्रेडिट सहकारि लि. एक्सम्बा	०१.०५.०८	३०.०४.११
10	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt 20.02.08 (G.O.I. Notification dt 22.03.08)	उ.क्षेत्र-हुबली	कर्नाटक/27533	मेसर्स. कर्नाटक एक्स-सर्विसमेन सेक्युरिटी एजेंसि	०१.०४.०८	३१.०३.११
11	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt 20.02.08 (G.O.I. Notification dt 22.03.08)	उ.क्षेत्र-हुबली	कर्नाटक/27591	मेसर्स. श्री अरिहंत क्रेडिट सौहार्द सहकारि लि. बोरगाव	०१.०२.०८	३१.०१.११
12	Gazette of India Notification dated 31.03.07	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/60	मेसर्स. अमको ब्याटेरीस	१३.०४.०७	१२.०४.१०
13	-	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/19627	मेसर्स. दि मैसूर सिल्क क्लात मेचेंट्स को-आप. ब्यांक लि.	०१.०३.०९	२९.०२.१२
14	No.2/1959/DLI/Exem/89/ Part-I/389 dt 08.06.04	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/24062	मेसर्स. स्पियरहेड सर्विसस प्रा.लि.	०१.०७.०४ ०१.०७.०७	३०.०६.०७ ३०.०६.१०
15	No.2/1959/DLI/Exem/89/ Part.I/389 dt 08.06.04	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/24263	मेसर्स.एस.आर. नोवा प्र.लि.	०१.०४.०५ ०१.०४.०८	३१.०३.०८ ३१.०३.१०
16	Gazette of India Notification dt 31.03.2007	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/25883	मेसर्स. इनफ़िनेस इंडिया प्रा.लि.	०१.०९.०८	३१.०८.१०
17	-	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/25970	मेसर्स. मेडि असिस्ट इंडिया प्रा. लि.	०१.०४.०५ ०१.०४.०८	३१.०३.०८ ३१.०३.११
18	-	क्षेत्र-बेंगलूर	कर्नाटक/42357	मेसर्स. ओराकल इंडिया प्रा. लि.	०१.०४.०९	३१.०३.१२

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th March 2010

No. **N-15/13/1/12/2008-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1<sup>st</sup> April, 2010** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

**"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF THE REVENUE VILLAGES OF S.LINGOTAM AND CHINNA KONDURU (HAMLETS OF MANDALAGUDEM & THURPUGUDEM) IN CHOUTUPPAL MANDAL OF NALGONDA DISTRICT OF ANDHRA PRADESH STATE."**

**(R.C. SHARMA)**  
**DIRECTOR (P&D)**

## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Bangalore-560025, the 8th April 2010

No.EPFO/ACC(K&G)/DLI-Exm(4)/19/2010-11 dated 08.04.2010 Whereas the employers of the establishment mentioned in the Schedule-I(hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, MetLife India Insurance and Reliance Life Insurance Co, Ltd in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempts each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioners, Goa, Bangalore, Gulbarga & Mangalore from the operation of the said scheme for a period of 3(three) years.

Schedule-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as employer) shall submit such returns to the Regional PF Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F.Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under Clause(A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India, MetLife India Insurance and Reliance Life Insurance Co, Ltd.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees' under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional PF Commissioner shall, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view, before according such approval.
9. Wherefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India and MetLife India Insurance and Reliance Life Insurance Co, Ltd as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, MetLife India Insurance and Reliance Life Insurance Co, Ltd and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India, MetLife India Insurance and Reliance Life Insurance Co, Ltd shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

[ DR.A MAHENDRA RAJU ]  
ADDITIONAL CENTRAL P.F. COMMISSIONER  
For and on behalf of Central P.F. Commissioner  
NEW DELHI...

## (Schedule-I)

Sl. No.	Previous Notification No.	RO/SRO	CODE NO.	NAME OF THE ESTABLISHMENT	PERIOD OF EXEMPTION	
					FROM	TO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	-	RO, Goa	GOA/12425	M/s. Goan Carnival & Leisures Pvt. Ltd	01.12.08	30.11.11
2	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/1276 dt 18.02.03	Ro, Mangalore	KN/6937	M/s. Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd	02.01.04 02.01.07	01.01.07 01.01.10
3	----	Ro, Mangalore	KN/38385	M/s.Sri Medhini Cashew Exports	01.04.09	31.03.12
4	Govt. of India Notification dt: 31.03.2007	SRO, Udupi	KN/12218	M/s Madhava Knpa English Nursery & Higher Primary School	01.06.09	31.05.12
5	Govt. of India Notification dt: 22.03.2008	SRO, Udupi	KN/20227	M/s.Sri Krishna Dairy Pvt Ltd	01.06.09	31.05.12
6	Govt. of India Notification dt: 31.03.2007	SRO, Udupi	KN/12232	M/s.TMA Pai Foundation	01.03.09	28.02.12
7	--	SRO, Hubli	KN/5492	M/s.The Nitish Lahary Education Society	01.03.09	29.02.12
8	No.AP/EPFO/ACC/SZ/ F.No.240/2009/719 dt 22.01.2009 (Gazette of India Notification dt 21.02.2009)	SRO, Hubli	KN/11899A	M/s.Karnataka Law Society	01.12.02 01.12.05	30.11.05 30.11.08
9	No.AP/EPFO/ACC/SZ/ F.No.240/2006/5419 DT 09.03.07 (G.O.I. Notification dt 31.03.07)	SRO, Hubli	KN/27305	M/s.Shri Beereswar Souhard Credit Sahakari Ltd, Examba	01.05.08	30.04.11
10	No.AP/EPFO/ACC/SZ/ F.No.240/2007/1357 dt 20.02.08 (G.O.I. Notification dt 22.03.08)	SRO, Hubli	KN/27533	M/s.Karnataka Ex-Servicemen Security Agency	01.04.08	31.03.11
11	No.AP/EPFO/ACC/SZ/ F.No.240/2007/1357 dt 20.02.08 (G.O.I. Notification dt 22.03.08)	SRO, Hubli	KN/27591	M/s.Shri.Arihant Credit Souhard Sahakari Ltd, Borgoan	01.02.08	31.01.11
12	Gazette of India Notification dated 31.03.07	RO, Bangalore	KN/60	M/s.AMCO Batteries	13.04.07	12.04.10
13	-	RO, Bangalore	KN/19627	M/s. The Mysore Silk Cloth Merchants Co-op. Bank Ltd	01.03.09	29.02.12
14	No.2/1959/DLI/Exem/89/ Part-I/389 dt 08.06.04	RO, Bangalore	KN/24062	M/s.Spearhead Services Pvt. Ltd	01.07.04 01.07.07	30.06.07 30.06.10
15	No.2/1959/DLI/Exem/89/ Part.I/389 dt 08.06.04	RO, Bangalore	KN/24263	M/s. S.R.Nova Private Ltd	01.04.05 01.04.08	31.03.08 31.03.10
16	Gazette of India Notification dt 31.03.2007	RO, Bangalore	KN/25883	M/s.Infinera India Pvt. Ltd	01.09.08	31.08.10
17	-	RO, Bangalore	KN/25970	M/s.Medi Assist India Pvt Ltd	01.04.05 01.04.08	31.03.08 31.03.11
18	-	RO, Bangalore	KN/42357	M/s. Oracle India Pvt Ltd	01.04.09	31.03.12